



ಲೇಖನಿ ಸಂಘಟನೆ, ಲೇಖನಿ ಸಂಘಟನೆ

ಅಧ್ಯಯನ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ (ಸಂವತ್ಸರ)

ಅಧ್ಯಯನ ಸಂವತ್ಸರ, ಅಧ್ಯಯನ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ

ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ



Sahitya Akademi, New Delhi

in collaboration with

Iramdam Meeyamgi Apunba Khorjei Lup (IMAKHOL)

Cordially invites you to

Literary Forum on Life and Works of Khuraijam Nimaicharan

on Sunday 29 May, 2022

1:30 pm

At Manipur Press Club, Majorkhul, Imphal

Welcome &

Key Note Address : N. Kirankumar, Convenor, Manipuri Advisory Board.

Presidential Speech : Ch. Chandrakala

Chair : RK. Gunachandra, Critic and Columnist

Papers : RK. Sanahanbi Chanu

Work and life of Kh. Nimaicharan

: Sh. Achou Sharma

Kh. Nimaicharan as a Lyricist.

: Sh. Shantibala Devi

Kh. Nimaicharan and 2nd World War

Vote of Thanks : Wahengbam Romen Meetei

General Secretary IMAKHOL

- Tea Break -